

5

B

H

## 2017 (II)

# भौतिक विज्ञान

समय : 3:00 घंटे

### प्रश्न पत्र

पूर्णक : 200 अंक

### अनुदेश

- आपने हिन्दी को माध्यम चुना है। इस परीक्षा पुस्तिका में पचहत्तर (20 भाग 'A' में + 25 भाग 'B' + 30 भाग 'C' में) बहुल विकल्प प्रश्न (MCQ) दिए गए हैं। आपको भाग 'A' में से अधिकतम 15 और भाग 'B' में 20 तथा भाग 'C' में से 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यदि निर्धारित से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए गए तब केवल पहले भाग 'A' से 15, भाग 'B' से 20 तथा भाग 'C' से 20 उत्तरों की जांच की जाएगी।
- ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक अलग से दिया गया है। अपना रोल नम्बर और केन्द्र का नाम लिखने से पहले यह जांच लीजिए कि पुस्तिका में पृष्ठ पूरे और सही हैं तथा कहीं से कटे-फटे नहीं हैं। यदि ऐसा है तो आप इन्विजीलेटर से उसी कोड की पुस्तिका बदलने का नियेदन कर सकते हैं। इसी तरह से ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक को भी जांच लें। इस पुस्तिका में रफ काम करने के लिए अतिरिक्त पन्ने संलग्न हैं।
- ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक के पृष्ठ 1 में दिए गए स्थान पर अपना रोल नम्बर, नाम तथा इस परीक्षा पुस्तिका का क्रमांक लिखिए, साथ ही अपना हस्ताक्षर भी अवश्य करें।
- आप अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में रोल नंबर, विषय कोड, पुस्तिका कोड और केन्द्र कोड से संबंधित समुचित वृत्तों को काले बॉल पेन से अवश्य काला करें। यह एक मात्र परीक्षार्थी की जिम्मेदारी है कि वह ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में दिए गए निर्देशों का पूरी सावधानी से पालन करें, ऐसा न करने पर कम्यूटर विवरणों का सही तरीके से अकूटित नहीं कर पाएगा, जिससे अंततः आपको हानि, जिसमें आपकी ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की अस्वीकृति भी शामिल है, हो सकती है।
- भाग 'A' में प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक, भाग 'B' में प्रत्येक प्रश्न के 3.5 अंक तथा 'C' में प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। प्रत्येक गलत उत्तर का ऋणात्मक मूल्यांकन 25 % (भाग 'A' में 0.50 अंक, भाग 'B' में 0.875 अंक तथा भाग 'C' में 1.25 अंक) की दर से किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रश्न के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक विकल्प ही "सही" अथवा "सर्वोत्तम हल" है। आपको प्रत्येक प्रश्न का सही अथवा सर्वोत्तम हल ढूँढना है।
- नकल करते हुए या अनुचित तरीकों का प्रयोग करते हुए पाए जाने वाले परीक्षार्थियों का इस और अन्य भावी परीक्षाओं के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- परीक्षार्थी को उत्तर या रफ पन्नों के अतिरिक्त कहीं और कुछ भी नहीं लिखना चाहिए।
- केलकूलेटर का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- परीक्षा समाप्ति पर छिद्र बिन्दु चिह्नित स्थान से ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक को विभाजित करें। इन्विजीलेटर को मूल ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक सौंपने के पश्चात आप इसकी कॉर्बनलैस प्रतिलिपि ले जा सकते हैं।
- हिन्दी माध्यम/संस्करण के प्रश्न में विसंगति होने/पाये जाने पर अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा।
- केवल परीक्षा की पूरी अवधि तक बैठने वाले परीक्षार्थी को ही परीक्षा पुस्तिका साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी।

रोल नंबर :

नाम :

परीक्षार्थी द्वारा भरी गई जानकारी को मैं सत्यापित करता हूँ।

.....

FOR ROUGH WORK

## भाग \PART 'A'

1. एक पत्ती सूर्य की रोशनी में हरी दिखती है। यदि उस पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाये तो वह कैसी दिखेगी?
  1. हरी
  2. काली-भूरी
  3. लाल
  4. नीली
  
1. A leaf appears green in daylight. If this leaf were observed in red light, what colour would it appear to have?
  1. green
  2. black-brown
  3. red
  4. blue
  
2. नेहरू नगर व गांधी नगर के बीच की दूरी 27 किमी है। नेहरू नगर से गांधीनगर की ओर A तथा B क्रमशः 5 किमी/घं. तथा 7 किमी/घं. की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। B गांधी नगर पहुंचने के बाद तुरंत लौटकर A से इंदिरानगर पर मिलता है। नेहरू नगर व इंदिरा नगर के बीच की दूरी कितनी है? (मानें कि तीनों शहर एक सरल रेखा में स्थित हैं)
  1. 12.5 किमी
  2. 22.5 किमी
  3. 4.5 किमी
  4. 13.5 किमी
  
2. The distance from Nehrunagar to Gandhinagar is 27 km. A and B start walking from Nehrunagar towards Gandhinagar at speeds of 5 km/hr and 7 km/hr, respectively. B reaches Gandhinagar, returns immediately, and meets A at Indiranagar. What is the distance between Nehrunagar and Indiranagar? (assume all three cities to be in one straight line)
  1. 12.5 km
  2. 22.5 km
  3. 4.5 km
  4. 13.5 km
  
3. एक गोला G जिसकी त्रिज्या  $b$  है, हवा में स्थित है तथा उससे सर्वथासमान अनेक गोले उस पर इस तरह दागे जाते हैं कि गोलों का वेग परस्पर समांतर है। यदि दागे गये गोले त्रिज्या  $a$  ( $b \ll a$ ) के एक काल्पनिक बेलन में गिरते हैं तो G से टकराते गोलों का भिन्न है
  1.  $2b/a$
  2.  $4b^2/a^2$
  3.  $(a - b)/(a + b)$
  4.  $8b^3/a^3$

3. A sphere G of radius  $b$  is fixed mid-air and several spheres identical to the first one are shot at it with their velocities parallel to each other. If the shot spheres fall within an imaginary cylinder of radius  $a$  ( $b \ll a$ ) then the fraction of spheres that will hit G is
  1.  $2b/a$
  2.  $4b^2/a^2$
  3.  $(a - b)/(a + b)$
  4.  $8b^3/a^3$
  
4. पांच व्यक्ति A, B, C, D, तथा E एक पंक्ति में इस तरह बैठे हैं कि C मध्य में है। यदि D पंक्ति के किसी एक सिरे पर है और कम से कम दो व्यक्ति B तथा E के बीच हैं, तो निम्न में से कौन-सा कथन गलत है?
  1. E बांये सिरे पर हो सकता है।
  2. E दाहिने सिरे पर हो सकता है।
  3. A बांये सिरे पर नहीं हो सकता है।
  4. A सैदव B या D का पड़ोसी है।
  
4. Five persons A, B, C, D, and E are sitting in a row with C in the middle of the group. If D is at an extreme end and there are at least two persons between B and E, then which of the following statements is **incorrect**?
  1. E can be on extreme left
  2. E can be on extreme right
  3. A cannot be on extreme left
  4. A is always a neighbour of B or D
  
5. विद्यार्थियों के एक समूह में 30% केवल क्रिकेट, 20% केवल फुटबॉल तथा 10% केवल बास्केट बॉल खेलते हैं। 20% विद्यार्थी फुटबॉल एवं क्रिकेट दोनों खेलते हैं तथा 15% विद्यार्थी बास्केट बॉल एवं क्रिकेट दोनों खेलते हैं, 10% विद्यार्थी फुटबॉल एवं बास्केट बॉल दोनों खेलते हैं। 15 विद्यार्थी कोई खेल नहीं खेलते हैं जबकि 5% विद्यार्थी तीनों खेल खेलते हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है?
  1. 300
  2. 250
  3. 350
  4. 400
  
5. In a group of students, 30% play only cricket, 20% play only football and 10% play only basketball. 20% of the students play both football and cricket, 15% play both basketball and cricket, 10% play both football and basketball. 15 students play no games, while 5% of the students play all three games. What is the total number of students?

1. 300                    2. 250  
 3. 350                    4. 400
6. 8 वर्ष की आयु में रमेश ने अपनी ऊँचाई चिन्हित करने के लिए एक विशाल वृक्ष में कील ठोकी। यदि वृक्ष के बढ़ने की दर 2 सेमी/प्रति वर्ष है तो 5 वर्ष पश्चात कील अपनी पूर्वावस्था से कितनी और ऊँची होगी?
1. 5 सेमी और ऊँची
  2. 0 सेमी और ऊँची
  3. 10 सेमी और ऊँची
  4. 8 सेमी और ऊँची
6. When Ramesh was at the age of 8 years, he hammered a nail into a large tree to mark his height. If the tree grows 2 cm/year, how much higher would the nail be after 5 years?
1. 5 cm higher
  2. 0 cm higher
  3. 10 cm higher
  4. 8 cm higher

7. लापता संख्या बतायें?

17	15	13	12
8		5	
25	24	41	40


1. 4                    2. 9  
 3. 3                    4. 6

7. Find the missing number.

17	15	13	12
8		5	
25	24	41	40

1. 4                    2. 9  
 3. 3                    4. 6


8.



ऊपर दिये गये स्तंभ चित्र में चार राजनैतिक दलों A, B, C तथा D द्वारा जीती गई सीटों को दर्शाया गया है। लड़ी गई सीटों के समानुपात में किस दल ने सर्वाधिक सीटें जीतीं?

1. A                    2. B  
 3. C                    4. D

8.



The bar chart above shows number of seats won by four political parties A, B, C and D. Which party won the largest proportion of seats it contested?

1. A                    2. B  
 3. C                    4. D

9. एक अत्यंत पतले जलीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के घोल में उसके मोकर भाग को दो गुणा कर दिया गया है। इस तरह बने घोल की pH है

1. लगभग दुगुनी                    2. लगभग आधी  
 3. बढ़ जाती है                    4. घट जाती है

9. The molar fraction of hydrochloric acid in an extremely dilute aqueous solution is doubled. The pH of the resulting solution is

1. approximately doubled  
 2. approximately halved  
 3. increased  
 4. reduced

10. प्रतिमिनट 70 बार धड़कने वाले एक सामान्य व्यक्ति के हृदय से होकर एक दिन में लगभग कितना खून गुजरता है, यदि हृदय का आयतन,

फैलाव की स्थिति में 110cc तथा संक्षित अवस्था में 70cc है?

- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1. 7150 लीटर  | 2. 4000 लीटर  |
| 3. 28000 लीटर | 4. 11100 लीटर |

- 10.** Approximately how much blood flows per day through a normal human heart beating 70 times per minute, having a relaxed volume of 110 cc and compressed volume of 70 cc?

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. 7150 litres  | 2. 4000 litres  |
| 3. 28000 litres | 4. 11100 litres |





- 11.** अंग्रेजी वर्णमाला को प्रयुक्त कर, उन तीन अक्षर वाले शब्दों की संख्या बताइये जिसमें प्रत्येक शब्द में कम से कम एक व्यंजन हो लेकिन लगातार दो व्यंजन ना हों।

- |         |         |
|---------|---------|
| 1. 2205 | 2. 3780 |
| 3. 2730 | 4. 3360 |




- 11.** The number of three English letter words, having at least one consonant, but not having two consecutive consonants, is


- |         |         |
|---------|---------|
| 1. 2205 | 2. 3780 |
| 3. 2730 | 4. 3360 |

- 12.** नीचे दिये गये आलेखों में से कौन-सा आलेख  $f(x) = \sin x \cos x$  का प्रतिनिधित्व करता है?





- 12.** Which one of the following graphs represents  $f(x) = \sin x \cos x$ ?








13. समान आयतन के दो गैस पार्सल, A तथा B एक ही ताप व दाब में हैं। पार्सल A एक मोल जल वाष्प है जबकि पार्सल B एक मोल शुष्क हवा है। निम्न कथनों में से कौन-सा सही है?
1. पार्सल A, पार्सल B से भारी है।
  2. पार्सल B, पार्सल A से भारी है।
  3. दोनों पार्सल के भार समान हैं।
  4. ताप व दाब के मानों के बिना उनके आपेक्षिक द्रव्यमान निर्धारित नहीं किये जा सकते।
13. There are two gas parcels of equal volume, A and B at the same temperature and pressure. Parcel A is one mole of water vapour, while parcel B is one mole of dry air. Which of the following is TRUE?
1. Parcel A is heavier than Parcel B
  2. Parcel B is heavier than Parcel A
  3. Both parcels are equally heavy
  4. Without temperature and pressure data, their relative masses cannot be determined
14. निम्न संख्याओं में किस संख्या का धनात्मक वर्गमूल उसी संख्या के निकटतम है?
- |         |         |
|---------|---------|
| 1. 0.33 | 2. 0.99 |
| 3. 0.89 | 4. 0.10 |
14. For which of the following numbers is its positive square root closest to the number itself?
- |         |         |
|---------|---------|
| 1. 0.33 | 2. 0.99 |
| 3. 0.89 | 4. 0.10 |
15. दी गई अनुक्रम में अगला प्रतिमान बतायें?



15. Find the next pattern in the following sequence:




16. भुजा  $a$  का एक छोटा वर्ग DRQP, एक  $A$  भुजा वाले बड़े वर्ग ABCD के एक कोने में है।



यदि  $A/a = 3$  है तो चतुर्भुज PBRQ व वर्ग ABCD के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है?

- |        |        |
|--------|--------|
| 1. 2/9 | 2. 1/6 |
| 3. 1/3 | 4. 2/7 |

16. DRQP is a small square of side  $a$  in the corner of a big square ABCD of side  $A$ .



What is the ratio of the area of the quadrilateral PBRQ to that of the square ABCD, given  $A/a = 3$ ?

1.  $2/9$       2.  $1/6$   
3.  $1/3$       4.  $2/7$

17. एक 100 मी. लंबी बाड़ स्टील के खंभों पर तार की जाली से बनायी जानी है। प्रत्येक खंभे की लंबाई ऊर्ध्वाधर भाग 1 मीटर तथा ऊर्ध्व से  $45^\circ$  पर झुका भाग 1 मीटर है। आवश्यक तार की जाली का कुल क्षेत्रफल कितना होगा?

1.  $200 \text{ m}^2$       2.  $241.4 \text{ m}^2$   
3.  $400 \text{ m}^2$       4.  $170.7 \text{ m}^2$

17. A 100 m long fence is to be made by fixing a wire mesh on steel poles. Each pole has a 1 m vertical portion and a 1 m portion tilted at  $45^\circ$  to the vertical. What will be the area of wire mesh required?

1.  $200 \text{ m}^2$       2.  $241.4 \text{ m}^2$   
3.  $400 \text{ m}^2$       4.  $170.7 \text{ m}^2$

18. किसी कंपनी के स्टाफ की औसत तनख्वाह ₹8000/- है। एक नये चौकीदार व एक नये प्रबंधक को क्रमशः ₹5000/- तथा ₹20000/- के वेतन पर नियुक्त किया जाता है। यदि नई औसत तनख्वाह चौकीदार की तनख्वाह से ₹4000/- अधिक है तो स्टाफ की कुल संख्या अब कितनी होगी?

1. 7      2. 9  
3. 10      4. 11

18. The average staff salary of a company is ₹8000/- . A new guard and a new manager are recruited with salaries of ₹ 5000/- and ₹ 20000/-, respectively. What is the current staff strength if the new average salary is ₹ 4000/- more than that of the guard?

1. 7      2. 9  
3. 10      4. 11

19. एक समबाहु त्रिभुजाकार क्षेत्र की तीन भुजाओं के ऊपर एक चिंडिया क्रमशः  $2, 4, 8$  किमी/घं की गति से उड़ती है। चिंडिया की औसत गति है

1.  $\frac{24}{7}$  किमी/घं  
2.  $\frac{14}{3}$  किमी/घं  
3.  $\frac{22}{7}$  किमी/घं  
4. 4 किमी/घं

19. A bird flies along the three sides of a field in the shape of an equilateral triangle at speeds of  $2, 4, 8$  km/hr, respectively. The average speed of the bird is

1.  $\frac{24}{7}$  km/hr  
2.  $\frac{14}{3}$  km/hr  
3.  $\frac{22}{7}$  km/hr  
4. 4 km/hr

20. किसी पुस्तक की  $n$  प्रतियों को 20% छूट पर  $A$  खरीदता है।  $B$  को वही पुस्तक 30% छूट पर मिलती है।  $n$  का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिये जिससे कि समान धन खर्च कर  $B$  द्वारा खरीदी गई पुस्तकों की संख्या  $A$  द्वारा खरीदी गई पुस्तकों की संख्या से एक अधिक हो?

1. 7  
2. 8  
3. 6  
4. जब तक कि पुस्तक का अंकित मूल्य अज्ञात है, इस प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता।

20. A buys  $n$  copies of a book at 20% discount. B gets the same book at 30% discount. What is the minimum value of  $n$  for which B can buy one extra copy of the book, spending the same amount as A?

1. 7  
2. 8  
3. 6  
4. This problem cannot be solved unless the marked price of the book is known.

## भाग \PART 'B'

21. मानें कि  $A$  एक व्युत्क्रमणीय  $3 \times 3$  आव्यूह है, जिसके स्तंभ क्रमशः सदिशों  $\vec{a}, \vec{b}$  तथा  $\vec{c}$  द्वारा निर्दिष्ट हैं। ऐसे ही,  $\vec{u}, \vec{v}$  तथा  $\vec{w}$  उन सदिशों को निर्दिष्ट करते हैं जो  $(A^T)^{-1}$  से संगत स्तंभों को बनाते हैं। निम्न प्रतिबंधों में से कौन-से सही हैं?

1.  $\vec{u} \cdot \vec{a} = 0, \vec{u} \cdot \vec{b} = 0, \vec{u} \cdot \vec{c} = 1$
2.  $\vec{u} \cdot \vec{a} = 0, \vec{u} \cdot \vec{b} = 1, \vec{u} \cdot \vec{c} = 0$
3.  $\vec{u} \cdot \vec{a} = 1, \vec{u} \cdot \vec{b} = 0, \vec{u} \cdot \vec{c} = 0$
4.  $\vec{u} \cdot \vec{a} = 0, \vec{u} \cdot \vec{b} = 0, \vec{u} \cdot \vec{c} = 0$

21. Let  $A$  be a non-singular  $3 \times 3$  matrix, the columns of which are denoted by the vectors  $\vec{a}, \vec{b}$  and  $\vec{c}$ , respectively. Similarly,  $\vec{u}, \vec{v}$  and  $\vec{w}$  denote the vectors that form the corresponding columns of  $(A^T)^{-1}$ . Which of the following is true?

1.  $\vec{u} \cdot \vec{a} = 0, \vec{u} \cdot \vec{b} = 0, \vec{u} \cdot \vec{c} = 1$
2.  $\vec{u} \cdot \vec{a} = 0, \vec{u} \cdot \vec{b} = 1, \vec{u} \cdot \vec{c} = 0$
3.  $\vec{u} \cdot \vec{a} = 1, \vec{u} \cdot \vec{b} = 0, \vec{u} \cdot \vec{c} = 0$
4.  $\vec{u} \cdot \vec{a} = 0, \vec{u} \cdot \vec{b} = 0, \vec{u} \cdot \vec{c} = 0$

22. वास्तविक फलन  $f(x) = 1/(x^2 + 4)$  पर विचारें।  $x = 0$  के दायरे में  $f(x)$  का टेलर प्रसरण अभिसरित होता है

1.  $x$  के सभी मानों के लिए
2.  $x = \pm 2$  के सिवाय,  $x$  के अन्य सभी मानों के लिए
3. प्रांत  $-2 < x < 2$  में
4.  $x > 2$  तथा  $x < -2$  के लिए

22. Consider the real function

$f(x) = 1/(x^2 + 4)$ . The Taylor expansion of  $f(x)$  about  $x = 0$  converges

1. for all values of  $x$
2. for all values of  $x$  except  $x = \pm 2$
3. in the region  $-2 < x < 2$
4. for  $x > 2$  and  $x < -2$

23. आव्यूह समीकरण

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & b & 2c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

पर विचारें। एक अतुच्छ हल के अस्तित्व के लिए प्रतिबंध तथा संगत प्रसामान्यीकृत हल (एक चिह्न तक) हैं

1.  $b = 2c$  तथा  $(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1)$
2.  $c = 2b$  तथा  $(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)$
3.  $c = b + 1$  तथा  $(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{6}}(2, -1, -1)$
4.  $b = c + 1$  तथा  $(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1)$

23. Consider the matrix equation

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & b & 2c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

The condition for existence of a non-trivial solution, and the corresponding normalised solution (upto a sign) is

1.  $b = 2c$  and  $(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1)$
2.  $c = 2b$  and  $(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)$
3.  $c = b + 1$  and  $(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{6}}(2, -1, -1)$
4.  $b = c + 1$  and  $(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1)$

24. प्रारंभिक प्रतिबंध  $y(0) = 0$  युक्त अवकल समीकरण  $\frac{dy}{dt} + ay = e^{-bt}$  पर विचारें। तो हल  $y(t)$  का लाप्लास रूपांतरण  $Y(s)$  है

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. $\frac{1}{(s+a)(s+b)}$ | 2. $\frac{1}{b(s+a)}$          |
| 3. $\frac{1}{a(s+b)}$     | 4. $\frac{e^{-a}-e^{-b}}{b-a}$ |

24. Consider the differential equation

$\frac{dy}{dt} + ay = e^{-bt}$  with the initial condition  $y(0) = 0$ . Then the Laplace transform  $Y(s)$  of the solution  $y(t)$  is

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. $\frac{1}{(s+a)(s+b)}$ | 2. $\frac{1}{b(s+a)}$          |
| 3. $\frac{1}{a(s+b)}$     | 4. $\frac{e^{-a}-e^{-b}}{b-a}$ |

25. एक बाह्य प्रेक्षक से सापेक्ष एकसमान गति  $0.3c$  से गतिशील एक खांच स्लैब के अंदर स्थित बिंदु A से खांच के अंदर स्थित दूसरी बिंदु B तक एक प्रकाश संकेत (उसी दिशा में) गतिशील होता है। यदि खांच का अपवर्तन गुणांक 1.5 है, तो प्रेक्षक संकेत की गति को मापने से पायेगा

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. $0.67c$ | 2. $0.81c$ |
| 3. $0.97c$ | 4. $c$     |

25. A light signal travels from a point A to a point B, both within a glass slab that is moving with uniform velocity (in the same direction as the light) with speed  $0.3c$  with respect to an external observer. If the refractive index of

the slab is 1.5, then the observer will measure the speed of the signal as

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. $0.67c$ | 2. $0.81c$ |
| 3. $0.97c$ | 4. $c$     |


26. एक एकसमान ऊर्ध्वाधर बेलन में, जिसका निचला अंत एक दृढ़ भित्ति से बंद किया गया है तथा दूसरा एक घर्षणहीन पिस्टन से, आयतन  $V$  का एक एकपरमाणवी गैस साम्यावस्था में है। पिस्टन को हल्के से दबाया जाता है और छोड़ दिया जाता है। मानें कि गैस ऊष्मा का अल्प चालक है तथा बेलन तथा पिस्टन पूर्णतया विद्युतरोधी हैं। यदि बेलन का अनुप्रस्थकाट क्षेत्रफल  $A$  है, साम्यावस्था बिन्दु के आस-पास पिस्टन के लघु दोलन की कोणीय बांबारता है:

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. $\sqrt{5gA/(3V)}$        | 2. $\sqrt{4gA/(3V)}$ |
| 3. $\frac{5}{3}\sqrt{gA/V}$ | 4. $\sqrt{7gA/(5V)}$ |

26. A monoatomic gas of volume  $V$  is in equilibrium in a uniform vertical cylinder, the lower end of which is closed by a rigid wall and the other by a frictionless piston. The piston is pressed lightly and released. Assume that the gas is a poor conductor of heat and the cylinder and piston are perfectly insulating. If the cross-sectional area of the cylinder is  $A$ , the angular frequency of small oscillations of the piston about the point of equilibrium, is

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. $\sqrt{5gA/(3V)}$        | 2. $\sqrt{4gA/(3V)}$ |
| 3. $\frac{5}{3}\sqrt{gA/V}$ | 4. $\sqrt{7gA/(5V)}$ |


27. एक स्थिर कार की छत से टंगे गये द्रव्यमानहीन दृढ़ छड़ के गिर्द कोणीय गति  $-\omega\hat{z}$  के साथ  $xy$  समतल के समांतर एक समतल में द्रव्यमान  $m$  की एक चक्रिका घूमने के लिए मुक्त है (जैसे कि निम्न चित्र में दर्शाया गया है)। छड़ अपने को किसी भी दिशा में विन्यासित करने के लिए मुक्त है।



धन  $x$ -दिशा में कार त्वरित होती है, त्वरण  $a > 0$  के साथ। कार के निर्देश फ्रेम में चक्रिका के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांकों के लिए निम्न कथनों में से कौन-सा सही है?

1. मात्र  $x$  तथा  $z$  निर्देशांक परिवर्तित होते हैं।
2. मात्र  $y$  तथा  $z$  निर्देशांक परिवर्तित होते हैं।
3. मात्र  $x$  तथा  $y$  निर्देशांक परिवर्तित होते हैं।
4. सभी तीनों निर्देशांक परिवर्तित होते हैं।

27. A disc of mass  $m$  is free to rotate in a plane parallel to the  $xy$  plane with an angular velocity  $-\omega\hat{z}$  about a massless rigid rod suspended from the roof of a stationary car (as shown in the figure below). The rod is free to orient itself along any direction.



The car accelerates in the positive  $x$ -direction with an acceleration  $a > 0$ . Which of the following statements is true for the coordinates of the centre of mass of the disc in the reference frame of the car?

1. only the  $x$  and the  $z$  coordinates change
2. only the  $y$  and the  $z$  coordinates change
3. only the  $x$  and the  $y$  coordinates change
4. all the three coordinates change

28. अपने साईकल के साथ 80 kg वजन रखने वाली एक साईकल चालिका, गति 10 m/s से पैडल करती है। एक पल, जो  $t = 0$  लिया जाता है, में वह पैडल करना बंद कर देती है। गति निर्भर घर्षण बल के कारण उसकी गति  $v(t) = 10/\left(1 + \frac{t}{30}\right)$  m/s, जहां  $t$  से. में मापा जाता है, के रूप में परिवर्तित होती है। जब गति 8 m/s, तक गिर जाती है, तो वह फिर से पैडल करना शुरू कर देती है, ताकि गति अचर बनाये रहें। इस नयी गति में उससे खर्च की जाने वाली ऊर्जा 1 मिनट में है

- |          |          |
|----------|----------|
| 1. 4 kJ  | 2. 8 kJ  |
| 3. 16 kJ | 4. 32 kJ |



- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. $\frac{4}{5} \epsilon_0 c E_0^2$ | 2. $\epsilon_0 c E_0^2$               |
| 3. $\frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2$ | 4. $\frac{16}{25} \epsilon_0 c E_0^2$ |

33. An electromagnetic wave is travelling in free space (of permittivity  $\epsilon_0$ ) with electric field  $\vec{E} = \hat{k}E_0 \cos q(x - ct)$ .

The average power (per unit area) crossing planes parallel to  $4x + 3y = 0$  will be

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. $\frac{4}{5} \epsilon_0 c E_0^2$ | 2. $\epsilon_0 c E_0^2$               |
| 3. $\frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2$ | 4. $\frac{16}{25} \epsilon_0 c E_0^2$ |

34. एक परावैद्युत माध्यम ( $\epsilon = 4\epsilon_0$ ,  $\mu = \mu_0$ ) के अंदर से एक समतल विद्युतचुंबकीय तरंग, उसके हवा के साथ की सीमा  $z = 0$  पर आपत्ति होता है। माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र है  $\vec{H} = \hat{j}H_0 \cos(\omega t - kx - k\sqrt{3}z)$ , जहाँ  $\omega$  तथा  $k$  धन अचर हैं। प्रतिवर्तन तथा अपवर्तन कोण हैं क्रमशः

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. $45^\circ$ तथा $60^\circ$ | 2. $30^\circ$ तथा $90^\circ$ |
| 3. $30^\circ$ तथा $60^\circ$ | 4. $60^\circ$ तथा $90^\circ$ |

34. A plane electromagnetic wave from within a dielectric medium (with  $\epsilon = 4\epsilon_0$  and  $\mu = \mu_0$ ) is incident on its boundary with air, at  $z = 0$ . The magnetic field in the medium is  $\vec{H} = \hat{j}H_0 \cos(\omega t - kx - k\sqrt{3}z)$ , where  $\omega$  and  $k$  are positive constants.

The angles of reflection and refraction are, respectively,

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. $45^\circ$ and $60^\circ$ | 2. $30^\circ$ and $90^\circ$ |
| 3. $30^\circ$ and $60^\circ$ | 4. $60^\circ$ and $90^\circ$ |

35. त्रिविम में एक कण का प्रसामान्यीकृत तंरंग फलन  $\psi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{8\pi a^3}} e^{-r/2a}$ , जहाँ  $a > 0$  एक अचर है, से दिया जाता है। उद्गम से प्रायिकतम दूरी तथा उद्गम से माध्य दूरी का अनुपात है।

- [आप  $\int_0^\infty dx x^n e^{-x} = n!$  का उपयोग कर सकते हैं]
- |          |          |
|----------|----------|
| 1. $1/3$ | 2. $1/2$ |
| 3. $3/2$ | 4. $2/3$ |

35. The normalized wavefunction of a particle in three dimensions is given by  $\psi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{8\pi a^3}} e^{-r/2a}$ , where  $a > 0$  is a constant. The

ratio of the most probable distance from the origin to the mean distance from the origin, is.

[You may use  $\int_0^\infty dx x^n e^{-x} = n!$  .]

- |          |          |
|----------|----------|
| 1. $1/3$ | 2. $1/2$ |
| 3. $3/2$ | 4. $2/3$ |

36. कोणीय बारंबारिता  $\omega$  वाली एक एकविमीय सरल आवर्तक दोलक का अवस्था सदिश समय  $t = 0$  पर,  $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|0\rangle + |2\rangle]$ , जहाँ  $|0\rangle$  तथा  $|2\rangle$  क्रमशः प्रसामान्यीकृत आधार तथा दूसरी उत्तेजित अवस्थाएँ हैं, से दिया जाता है। वह न्यूनतम समय  $t$  जिसके बाद अवस्था सदिश  $|\psi(t)\rangle$ ,  $|\psi(0)\rangle$  से लांबिक है, है

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. $\pi/2\omega$ | 2. $2\pi/\omega$ |
| 3. $\pi/\omega$  | 4. $4\pi/\omega$ |

36. The state vector of a one-dimensional simple harmonic oscillator of angular frequency  $\omega$ , at time  $t = 0$ , is given by  $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|0\rangle + |2\rangle]$ , where  $|0\rangle$  and  $|2\rangle$  are the normalized ground state and the second excited state, respectively. The minimum time  $t$  after which the state vector  $|\psi(t)\rangle$  is orthogonal to  $|\psi(0)\rangle$ , is









- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. $\pi/2\omega$ | 2. $2\pi/\omega$ |
| 3. $\pi/\omega$  | 4. $4\pi/\omega$ |

37. एक विमा में एक क्वांटम तंत्र के संवेग समिष्ट में प्रसामान्यीकृत तंरंग फलन है  $\phi(p) = \frac{\alpha}{p^2 + \beta^2}$ , जहाँ  $\alpha$  तथा  $\beta$  अचर हैं। उसके स्थान को मापने में अनिश्चितता  $\Delta x$  है


- |   |   |
|---|---|
| 1. $\sqrt{\pi} \frac{\hbar\alpha}{\beta^2}$ | 2. $\sqrt{\pi} \frac{\hbar\alpha}{\beta^3}$             |
| 3. $\frac{\hbar}{\sqrt{2}\beta}$            | 4. $\sqrt{\frac{\pi}{\beta}} \frac{\hbar\alpha}{\beta}$ |

37. The normalized wavefunction in the momentum space of a particle in one dimension is  $\phi(p) = \frac{\alpha}{p^2 + \beta^2}$ , where  $\alpha$  and  $\beta$  are real constants. The uncertainty  $\Delta x$  in measuring its position is

- |   |   |
|---|---|
| 1. $\sqrt{\pi} \frac{\hbar\alpha}{\beta^2}$ | 2. $\sqrt{\pi} \frac{\hbar\alpha}{\beta^3}$             |
| 3. $\frac{\hbar}{\sqrt{2}\beta}$            | 4. $\sqrt{\frac{\pi}{\beta}} \frac{\hbar\alpha}{\beta}$ |

38. एक  $n$ -बिट अंकीय-अनुरूप परिवर्तक का पूर्ण आमाप वोल्टता  $V$  है। इसमें पाये जा सकनेवाला विभेदन है।
1.  $V/(2^n - 1)$
  2.  $V/(2^n + 1)$
  3.  $V/2^{2n}$
  4.  $V/n$
38. The full scale voltage of an  $n$ -bit Digital-to-Analog Converter is  $V$ . The resolution that can be achieved in it is
1.  $V/(2^n - 1)$
  2.  $V/(2^n + 1)$
  3.  $V/2^{2n}$
  4.  $V/n$
39. द्रव्यमान  $m_s$  के एक कमानी का कमानी अचर  $k$ , कमानी पर  $M$  द्रव्यमान को लादकर, एक दोलन के आवर्तकाल  $T$  को अंकित करके प्रयोगिकतः निर्धारित किया जाता है। यदि प्रयोग विभिन्न द्रव्यमानों के लिए किया जाता है, तो परिणाम को सही दर्शाने वाला आलेख है:
1. 
2. 
3. 
4. 
39. The spring constant  $k$ , of a spring of mass  $m_s$ , is determined experimentally by loading the spring with mass  $M$  and recording the time period  $T$ , for a single oscillation. If the experiment is carried out for different masses, then the graph that correctly represents the result is
1. 
2. 
3. 
4. 
40.  $25^\circ$  से. पर प्रचालन वोल्टता  $10\text{ V}$  युक्त एक जैनर डायोड का धन ताप गुणांक प्रचालन वोल्टता का  $0.07\%$  प्रति. से. है।  $125^\circ$ से. पर इस जैनर डायोड की प्रचालन वोल्टता है
1.  $12.0\text{ V}$
  2.  $11.7\text{ V}$
  3.  $10.7\text{ V}$
  4.  $9.3\text{ V}$
40. A Zener diode with an operating voltage of  $10\text{ V}$  at  $25^\circ\text{C}$  has a positive temperature coefficient of  $0.07\%$  per  $^\circ\text{C}$  of the operating voltage. The operating voltage of this Zener diode at  $125^\circ\text{C}$  is
1.  $12.0\text{ V}$
  2.  $11.7\text{ V}$
  3.  $10.7\text{ V}$
  4.  $9.3\text{ V}$
41. द्विविम में प्रचक्रमण  $\frac{1}{2}$  वाले फर्मियानों के एक गैस का परिक्षेपण संबंध है  $E = \hbar v |\vec{k}|$ , जहां  $E$  है ऊर्जा,  $\vec{k}$  है तरंग सदिश, तथा  $v$  एक अचर है जिसकी विमा गति की है। यदि शून्य ताप पर फर्मी ऊर्जा  $\epsilon_F$ , है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल कणों की संख्या है
1.  $\epsilon_F / (4\pi v \hbar)$
  2.  $\epsilon_F^3 / (6\pi^2 v^3 \hbar^2)$
  3.  $\pi \epsilon_F^{3/2} / (3v^3 \hbar^3)$
  4.  $\epsilon_F^2 / (2\pi v^2 \hbar^2)$
41. The dispersion relation of a gas of spin- $\frac{1}{2}$  fermions in two dimensions is  $E = \hbar v |\vec{k}|$ , where  $E$  is the energy,  $\vec{k}$  is the wave vector and  $v$  is a constant with the dimension of velocity. If the Fermi energy at zero temperature is  $\epsilon_F$ , the number of particles per unit area is
1.  $\epsilon_F / (4\pi v \hbar)$
  2.  $\epsilon_F^3 / (6\pi^2 v^3 \hbar^2)$
  3.  $\pi \epsilon_F^{3/2} / (3v^3 \hbar^3)$
  4.  $\epsilon_F^2 / (2\pi v^2 \hbar^2)$
42. एक ऊष्मगतिकी तंत्र के आंतरिक ऊर्जा  $U$ , एंट्रॉपी  $S$ , ताप  $T$ , दाब  $p$ , आयतन  $V$ , रासायनिक विभव  $\mu$  तथा कणों की संख्या  $N$  के बीच का संबंध है  $dU = TdS - pdV + \mu dN$ . यदि  $U$  एक यथातथ अवकल है, तो यह इंगित करता है कि
1.  $-\frac{\partial p}{\partial S} \Big|_{V,N} = \frac{\partial T}{\partial V} \Big|_{S,N}$
  2.  $p \frac{\partial U}{\partial T} \Big|_{S,N} = S \frac{\partial U}{\partial V} \Big|_{S,\mu}$


3.  $p \frac{\partial U}{\partial T} \Big|_{S,N} = -\frac{1}{T} \frac{\partial U}{\partial V} \Big|_{S,\mu}$
4.  $\frac{\partial p}{\partial S} \Big|_{V,N} = \frac{\partial T}{\partial V} \Big|_{S,N}$
42. The relation between the internal energy  $U$ , entropy  $S$ , temperature  $T$ , pressure  $p$ , volume  $V$ , chemical potential  $\mu$  and number of particles  $N$  of a thermodynamic system is  $dU = TdS - pdV + \mu dN$ . That  $U$  is an exact differential implies that
1.  $-\frac{\partial p}{\partial S} \Big|_{V,N} = \frac{\partial T}{\partial V} \Big|_{S,N}$
  2.  $p \frac{\partial U}{\partial T} \Big|_{S,N} = S \frac{\partial U}{\partial V} \Big|_{S,\mu}$
  3.  $p \frac{\partial U}{\partial T} \Big|_{S,N} = -\frac{1}{T} \frac{\partial U}{\partial V} \Big|_{S,\mu}$
  4.  $\frac{\partial p}{\partial S} \Big|_{V,N} = \frac{\partial T}{\partial V} \Big|_{S,N}$
43. आयतन  $V$  में, आंतरिक ऊर्जा  $U$  के,  $N$  कणों से बने एक गैस की सूक्ष्मावस्थाओं की संख्या  $\Omega(U, V, N) = (V - Nb)^N \left(\frac{aU}{N}\right)^{3N/2}$  से दिया जाता है, (जहाँ  $a$  तथा  $b$  धन अचर हैं)। उसके दाब  $P$ , आयतन  $V$  तथा ताप  $T$  इस प्रकार संबंधित हैं:
1.  $\left(P + \frac{aN}{V}\right)(V - Nb) = Nk_B T$
  2.  $\left(P - \frac{aN}{V^2}\right)(V - Nb) = Nk_B T$
  3.  $PV = Nk_B T$
  4.  $P(V - Nb) = Nk_B T$
43. The number of microstates of a gas of  $N$  particles in a volume  $V$  and of internal energy  $U$ , is given by
- $$\Omega(U, V, N) = (V - Nb)^N \left(\frac{aU}{N}\right)^{3N/2},$$
- (where  $a$  and  $b$  are positive constants). Its pressure  $P$ , volume  $V$  and temperature  $T$ , are related by
1.  $\left(P + \frac{aN}{V}\right)(V - Nb) = Nk_B T$
  2.  $\left(P - \frac{aN}{V^2}\right)(V - Nb) = Nk_B T$
  3.  $PV = Nk_B T$
  4.  $P(V - Nb) = Nk_B T$
44. ताप  $T$  पर, एक गुहिका में, कृष्णिका के साथ साम्यावस्था में रहते, सर्वथासमान परमाणुओं से बने, एक तंत्र पर विचारें। प्रत्येक परमाणु के आधार अवस्था  $|0\rangle$  तथा एक उत्तेजित अवस्था  $|1\rangle$  पर रहने की साम्यावस्था प्रायिकतायें क्रमशः  $P_0$  तथा  $P_1$  हैं। गुहिका में दोनों अवस्थाओं के बीच संक्रमण कारणित करती एक शीति में, मानें कि फोटानों की मात्रा संख्या  $n$  है। मानें कि  $W_{0 \rightarrow 1}$  तथा  $W_{1 \rightarrow 0}$  क्रमशः परमाणविक संक्रमणों  $|0\rangle \rightarrow |1\rangle$  तथा  $|1\rangle \rightarrow |0\rangle$  से संगत आव्यूह अवयवों के वर्ग हैं। साम्यावस्था में निम्न समीकरणों में से कौन-सा लागू होगा?
1.  $P_0 n W_{0 \rightarrow 1} = P_1 W_{1 \rightarrow 0}$
  2.  $P_0 W_{0 \rightarrow 1} = P_1 n W_{1 \rightarrow 0}$
  3.  $P_0 n W_{0 \rightarrow 1} = P_1 W_{1 \rightarrow 0} - P_1 n W_{1 \rightarrow 0}$
  4.  $P_0 n W_{0 \rightarrow 1} = P_1 W_{1 \rightarrow 0} + P_1 n W_{1 \rightarrow 0}$
44. Consider a system of identical atoms in equilibrium with blackbody radiation in a cavity at temperature  $T$ . The equilibrium probabilities for each atom being in the ground state  $|0\rangle$  and an excited state  $|1\rangle$  are  $P_0$  and  $P_1$ , respectively. Let  $n$  be the average number of photons in a mode in the cavity that causes transition between the two states. Let  $W_{0 \rightarrow 1}$  and  $W_{1 \rightarrow 0}$  denote, respectively, the squares of the matrix elements corresponding to the atomic transitions  $|0\rangle \rightarrow |1\rangle$  and  $|1\rangle \rightarrow |0\rangle$ . Which of the following equations hold in equilibrium?
1.  $P_0 n W_{0 \rightarrow 1} = P_1 W_{1 \rightarrow 0}$
  2.  $P_0 W_{0 \rightarrow 1} = P_1 n W_{1 \rightarrow 0}$
  3.  $P_0 n W_{0 \rightarrow 1} = P_1 W_{1 \rightarrow 0} - P_1 n W_{1 \rightarrow 0}$
  4.  $P_0 n W_{0 \rightarrow 1} = P_1 W_{1 \rightarrow 0} + P_1 n W_{1 \rightarrow 0}$
45. निम्न परिपथ में वोल्टतायें  $V_{BB}$  तथा  $V_{CC}$  अचर रखे जाते हैं, B पर मापी गयी वोल्टता एक अचर है, परंतु A पर मापी गयी वोल्टता कुछ  $\mu V$  से लेकर कुछ  $mV$  तक उच्चावचित होती है।



इन मापनों से ये निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि

1. बेस अंदर से खुला है।
2. ऐमिटर अंदर से खुला है।
3. कलैक्टर प्रतिरोधक खुला है।
4. बेस प्रतिरोधक खुला है।

45. In the circuit below the voltages  $V_{BB}$  and  $V_{CC}$  are kept fixed, the voltage measured at B is a constant, but that measured at A fluctuates between a few  $\mu\text{V}$  to a few  $\text{mV}$ .



From these measurements it may be inferred that the

1. base is open internally
2. emitter is open internally
3. collector resistor is open
4. base resistor is open

## भाग \PART 'C'

46. एक युगल विभव  $V = ar^6$ , जहां  $r$  अंतर्कण पार्थक्य है तथा  $a > 0$  एक अचर है, द्वारा अन्योन्यक्रिया करते कणों के एक सुचय के बारे में विचारें। यदि ऐसे कणों का एक तंत्र वीरियल साम्यावस्था पर पहुंच गया है, गतिक ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा का अनुपात है

1.  $1/2$
2.  $1/3$
3.  $3/4$
4.  $2/3$

46. Consider a set of particles which interact by a pair potential  $V = ar^6$ , where  $r$  is the inter-particle separation and  $a > 0$  is a constant. If a system of such particles has reached virial equilibrium, the ratio of the kinetic to the total energy of the system is

1.  $1/2$
2.  $1/3$
3.  $3/4$
4.  $2/3$

47. एक जड़त्वीय फ्रेम  $S$  में आकाश के एक क्षेत्र में चुंबकीय सदिश विभव  $\vec{A} = az\hat{i}$  से दिया जाता है (जहां  $a$  एक अचर है) तथा अंदिश विभव शून्य है।  $S$  से सापेक्ष, एक जड़त्वीय गति  $v\hat{i}$  के साथ गतिशील एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाले विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र हैं, क्रमशः [निम्न में  $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$  है]

1.  $0$  तथा  $\gamma a\hat{j}$
2.  $-v\gamma a\hat{k}$  तथा  $\gamma a\hat{i}$
3.  $v\gamma a\hat{k}$  तथा  $v\gamma a\hat{j}$
4.  $v\gamma a\hat{k}$  तथा  $\gamma a\hat{j}$

47. In an inertial frame  $S$ , the magnetic vector potential in a region of space is given by  $\vec{A} = az\hat{i}$  (where  $a$  is a constant) and the scalar potential is zero. The electric and magnetic fields seen by an inertial observer moving with a velocity  $v\hat{i}$  with respect to  $S$ , are, respectively [In the following  $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ .]

1.  $0$  and  $\gamma a\hat{j}$
2.  $-v\gamma a\hat{k}$  and  $\gamma a\hat{i}$
3.  $v\gamma a\hat{k}$  and  $v\gamma a\hat{j}$
4.  $v\gamma a\hat{k}$  and  $\gamma a\hat{j}$

48. विद्युत आवेश  $q_1$  युक्त एक बिंदु कण के आराम फ्रेम  $S_1$  में विद्युत आवेश  $q_2$  युक्त एक दूसरा बिंदु कण लांबिक दूरी  $l$  पर  $x$ -अक्ष के समांतर गति  $v$  के साथ गतिशील होता है।  $q_2$  के कारण  $q_1$  से अनुभव किया जानेवाला विद्युतचुंबकीय बल, जब उन दोनों के बीच की दूरी न्यूनतम है, है [निम्न में  $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$  है]

1.  $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{\gamma l^2}$
2.  $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\gamma q_1 q_2}{l^2}$
3.  $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\gamma q_1 q_2}{l^2} \left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right)$
4.  $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{\gamma l^2} \left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right)$

48. In the rest frame  $S_1$  of a point particle with electric charge  $q_1$ , another point particle

with electric charge  $q_2$  moves with a speed  $v$  parallel to the  $x$ -axis at a perpendicular distance  $l$ . The magnitude of the electromagnetic force felt by  $q_1$  due to  $q_2$  when the distance between them is minimum, is

[In the following  $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ .]

1.  $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{\gamma l^2}$
2.  $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\gamma q_1 q_2}{l^2}$
3.  $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\gamma q_1 q_2}{l^2} \left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right)$
4.  $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{\gamma l^2} \left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right)$

49. त्रिज्या  $a$  का एक वृत्ताकार विद्युतधारा वाहक पाश, एक अपरिवर्ती विद्युतधारा को वहित करता है। पाश के केंद्र में एक अचर विद्युत आवेश रखा जाता है। पाश के केंद्र से ऊर्ध्वाधर, दूरी  $d$  पर विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः  $\vec{E}$  तथा  $\vec{B}$  समाधान करते हैं

1.  $\vec{E} \perp \vec{B}$
2.  $\vec{E} = 0$
3.  $\vec{\nabla}(\vec{E} \cdot \vec{B}) = 0$
4.  $\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{B}) = 0$

49. A circular current carrying loop of radius  $a$  carries a steady current. A constant electric charge is kept at the centre of the loop. The electric and magnetic fields,  $\vec{E}$  and  $\vec{B}$  respectively, at a distance  $d$  vertically above the centre of the loop satisfy

1.  $\vec{E} \perp \vec{B}$
2.  $\vec{E} = 0$
3.  $\vec{\nabla}(\vec{E} \cdot \vec{B}) = 0$
4.  $\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{B}) = 0$

50. जब एक लक्ष्य द्वारा ऊर्जा  $0.1 \text{ MeV}$  के कणों का एक किरणपुंज प्रकीर्णित होती है,  $30^\circ$  का एक कला विस्थापन प्रेक्षित किया जाता है। जब किरणपुंज की ऊर्जा परिवर्तित की जाती है, प्रेक्षित कला विस्थापन  $60^\circ$  है। यह मानते हुये कि मात्र  $s$ -तरंग प्रकीर्णन प्रासंगिक है तथा अनुप्रस्थकाट ऊर्जा के साथ परिवर्तित नहीं होता, किरणपुंज की ऊर्जा है:

1.  $0.4 \text{ MeV}$
2.  $0.3 \text{ MeV}$
3.  $0.2 \text{ MeV}$
4.  $0.15 \text{ MeV}$

50. A phase shift of  $30^\circ$  is observed when a beam of particles of energy  $0.1 \text{ MeV}$  is scattered by a target. When the beam energy is changed, the observed phase shift is  $60^\circ$ . Assuming that only  $s$ -wave scattering is relevant and that the cross-section does not change with energy, the beam energy is

1.  $0.4 \text{ MeV}$
2.  $0.3 \text{ MeV}$
3.  $0.2 \text{ MeV}$
4.  $0.15 \text{ MeV}$

51. समूह  $SU(2)$ , के एक अवयव  $U(\varphi)$  के बारे में विचारें, जहां  $\varphi$  समूह के प्राचलों में से कोई एक है। एक अत्यंत परिवर्तन  $\varphi \rightarrow \varphi + \delta\varphi$  के अधीन, वह परिवर्तित होता है ऐसे  $U(\varphi) \rightarrow U(\varphi) + \delta U(\varphi) = (1 + X(\delta\varphi))U(\varphi)$ .  $\delta\varphi$  की कोटि तक आव्यूह  $X(\delta\varphi)$  को सदैव होना चाहिये

1. धनात्मक निश्चित
2. वास्तविक सममित
3. हर्मिटी
4. प्रतिहर्मिटी

51. Consider an element  $U(\varphi)$  of the group  $SU(2)$ , where  $\varphi$  is any one of the parameters of the group. Under an infinitesimal change  $\varphi \rightarrow \varphi + \delta\varphi$ , it changes as  $U(\varphi) \rightarrow U(\varphi) + \delta U(\varphi) = (1 + X(\delta\varphi))U(\varphi)$ . To order  $\delta\varphi$ , the matrix  $X(\delta\varphi)$  should always be

1. positive definite
2. real symmetric
3. hermitian
4. anti-hermitian

52. प्रारंभिक प्रतिबंध  $y(0) = 0$  युक्त अवकल समीकरण  $\frac{dy(x)}{dx} = \alpha x^2$  को औलर विधि के उपयोग से हल किया जाता है। यदि  $y_E(x)$  यथात्थ हल है तथा समान लंबाई के  $n$  चरणों से प्राप्त संख्यात्मक हल  $y_N(x)$  है, तो आपेक्षिक त्रृटि  $\left| \frac{(y_N(x) - y_E(x))}{y_E(x)} \right|$  इस अनुपात में है:


1.  $1/n^2$
2.  $1/n^3$
3.  $1/n^4$
4.  $1/n$

52. The differential equation  $\frac{dy(x)}{dx} = \alpha x^2$ , with the initial condition  $y(0) = 0$ , is solved using Euler's method. If  $y_E(x)$  is the exact solution and  $y_N(x)$  the numerical solution obtained using  $n$  steps of equal length, then the relative error  $\left| \frac{(y_N(x) - y_E(x))}{y_E(x)} \right|$  is proportional to

1.  $1/n^2$       2.  $1/n^3$   
 3.  $1/n^4$       4.  $1/n$
53. समाकल  $\int_0^1 e^{i2\pi x} dx$  के परिकलन को समलंब विधि के उपयोग से करने के लिए अंतराल  $[0,1]$  को समान लंबाई के  $n$  भागों में विभाजित किया जाता है।  $n$  का न्यूनतम मान जिसके लिए परिणाम यथात्थ है,
1. 2      2. 3  
 3. 4      4.  $\infty$
53. The interval  $[0,1]$  is divided into  $n$  parts of equal length to calculate the integral  $\int_0^1 e^{i2\pi x} dx$  using the trapezoidal rule. The minimum value of  $n$  for which the result is exact, is
1. 2      2. 3  
 3. 4      4.  $\infty$
54. लेजान्ड्रे बहुपदों  $P_n(t)$  का जनक फलन  $G(t,x)$  है  


$$G(t,x) = \frac{1}{\sqrt{1-2xt+x^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n P_n(t), \quad |x| < 1$$
 के लिए। यदि  $f(x)$  की परिभाषा समाकल समीकरण  $\int_0^x f(x')dx' = xG(1,x)$  से दी जाती है, तो उसकी अभिव्यक्ति ऐसे की जा सकती है:
1.  $\sum_{n,m=0}^{\infty} x^{n+m} P_n(1) P_m\left(\frac{1}{2}\right)$   
 2.  $\sum_{n,m=0}^{\infty} x^{n+m} P_n(1) P_m(1)$   
 3.  $\sum_{n,m=0}^{\infty} x^{n-m} P_n(1) P_m(1)$   
 4.  $\sum_{n,m=0}^{\infty} x^{n-m} P_n(0) P_m(1)$
54. The generating function  $G(t,x)$  for the Legendre polynomials  $P_n(t)$  is
- $$G(t,x) = \frac{1}{\sqrt{1-2xt+x^2}}$$
- $$= \sum_{n=0}^{\infty} x^n P_n(t), \quad \text{for } |x| < 1.$$
- If the function  $f(x)$  is defined by the integral equation  $\int_0^x f(x')dx' = xG(1,x)$ , it can be expressed as
1.  $\sum_{n,m=0}^{\infty} x^{n+m} P_n(1) P_m\left(\frac{1}{2}\right)$   
 2.  $\sum_{n,m=0}^{\infty} x^{n+m} P_n(1) P_m(1)$   
 3.  $\sum_{n,m=0}^{\infty} x^{n-m} P_n(1) P_m(1)$   
 4.  $\sum_{n,m=0}^{\infty} x^{n-m} P_n(0) P_m(1)$
55. एक विमा में विभव  $V(x) = -k^2 x^4 + \omega^2 x^2$  में एक कण गतिशील है, जहां  $k$  तथा  $\omega$  अचर हैं। प्रावस्था समष्टि में इस तंत्र के प्रपथों का श्रेष्ठतम वर्णन निम्न वक्रों में से कौन-सा करता है?
-

4.




55. A particle moves in one dimension in a potential  $V(x) = -k^2x^4 + \omega^2x^2$  where  $k$  and  $\omega$  are constants. Which of the following curves best describes the trajectories of this system in phase space?


1.




2.



3.



4.



56. मानें कि किसी हैमिल्टनी तंत्र के व्यापकीकृत निर्देशांक तथा संवेग  $(x, p)$  हैं। यदि नये चर  $(X, P)$ ,  $X = x^\alpha \sinh(\beta p)$  तथा  $P = x^\gamma \cosh(\beta p)$  से परिभाषित किये जाते हैं, जहां  $\alpha, \beta$  तथा  $\gamma$  अचर हैं, तो उसके एक विहित रूपांतरण होने के लिए प्रतिबंध हैं:

1.  $\alpha = \frac{1}{2\beta}(\beta + 1)$  तथा  $\gamma = \frac{1}{2\beta}(\beta - 1)$
2.  $\beta = \frac{1}{2\gamma}(\alpha + 1)$  तथा  $\gamma = \frac{1}{2\alpha}(\alpha - 1)$
3.  $\alpha = \frac{1}{2\beta}(\beta - 1)$  तथा  $\gamma = \frac{1}{2\beta}(\beta + 1)$
4.  $\beta = \frac{1}{2\gamma}(\alpha - 1)$  तथा  $\gamma = \frac{1}{2\alpha}(\alpha + 1)$

56. Let  $(x, p)$  be the generalized coordinate and momentum of a Hamiltonian system. If new variables  $(X, P)$  are defined by  $X = x^\alpha \sinh(\beta p)$  and  $P = x^\gamma \cosh(\beta p)$ , where  $\alpha, \beta$  and  $\gamma$  are constants, then the conditions for it to be a canonical transformation, are

1.  $\alpha = \frac{1}{2\beta}(\beta + 1)$  and  $\gamma = \frac{1}{2\beta}(\beta - 1)$
2.  $\beta = \frac{1}{2\gamma}(\alpha + 1)$  and  $\gamma = \frac{1}{2\alpha}(\alpha - 1)$
3.  $\alpha = \frac{1}{2\beta}(\beta - 1)$  and  $\gamma = \frac{1}{2\beta}(\beta + 1)$
4.  $\beta = \frac{1}{2\gamma}(\alpha - 1)$  and  $\gamma = \frac{1}{2\alpha}(\alpha + 1)$

57. तीन अनपभ्रष्ट ऊर्जा स्तरों,  $E = 0, \pm \epsilon$ , युक्त एक संकृत तंत्र ताप  $T$  पर है।  $\epsilon = 2k_B T$  के लिए ऊर्जा  $E = 0$  वाली अवस्था में तंत्र को पाने की प्रायिकता है

1.  $1/(1 + 2 \cosh 2)$
2.  $1/(2 \cosh 2)$
3.  $\frac{1}{2} \cosh 2$
4.  $1/\cosh 2$

57. A closed system having three non-degenerate energy levels with energies  $E = 0, \pm \epsilon$ , is at temperature  $T$ . For  $\epsilon = 2k_B T$ , the probability of finding the system in the state with energy  $E = 0$ , is

1.  $1/(1 + 2 \cosh 2)$
2.  $1/(2 \cosh 2)$
3.  $\frac{1}{2} \cosh 2$
4.  $1/\cosh 2$


58. ऊर्जा 0 तथा  $\epsilon$  युक्त दो अनपभ्रष्ट ऊर्जा स्तर ताप  $T$  पर  $N$  अन्योन्यक्रियाहीन कणों द्वारा निवेशित हैं। चिरप्रतिष्ठित सांख्यिकी को उपयोग करके, तंत्र की माध्य आंतरिक ऊर्जा है

1.  $N\epsilon/(1 + e^{\epsilon/k_B T})$
2.  $N\epsilon/(1 - e^{\epsilon/k_B T})$
3.  $N\epsilon e^{-\epsilon/k_B T}$
4.  $\frac{3}{2} N k_B T$

58. Two non-degenerate energy levels with energies 0 and  $\epsilon$  are occupied by  $N$  non-interacting particles at a temperature  $T$ . Using classical statistics, the average internal energy of the system is


1.  $N\epsilon/(1 + e^{\epsilon/k_B T})$
2.  $N\epsilon/(1 - e^{\epsilon/k_B T})$
3.  $N\epsilon e^{-\epsilon/k_B T}$
4.  $\frac{3}{2} N k_B T$

59. निम्न परिपथ में  $D_1$  तथा  $D_2$  दो सिलिकोन डायोड हैं, सदृश अभिलक्षणों के साथ। यदि एक सिलिकोन डायोड का अग्र वोल्टता गिरावट 0.7 V है तो विद्युत धारा  $I_1 + I_{D_1}$  का मान है



1. 18.6 mA
2. 9.3 mA
3. 13.95 mA
4. 14.65 mA

59. In the circuit below,  $D_1$  and  $D_2$  are two silicon diodes with the same characteristics. If the forward voltage drop of a silicon diode is 0.7 V, then the value of the current  $I_1 + I_{D_1}$  is



1. 18.6 mA
2. 9.3 mA
3. 13.95 mA
4. 14.65 mA

60. एक दो स्तर के क्वांटम तंत्र की हैमिल्टनी है  $H = \frac{1}{2}\hbar\omega \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ . एक संभाव्य प्रारंभिक अवस्था, जिसमें तंत्र को पाये जाने की प्रायिकता समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, है

1.  $\begin{pmatrix} \cos\frac{\pi}{4} \\ \sin\frac{\pi}{4} \end{pmatrix}$
2.  $\begin{pmatrix} \cos\frac{\pi}{8} \\ \sin\frac{\pi}{8} \end{pmatrix}$
3.  $\begin{pmatrix} \cos\frac{\pi}{2} \\ \sin\frac{\pi}{2} \end{pmatrix}$
4.  $\begin{pmatrix} \cos\frac{\pi}{6} \\ \sin\frac{\pi}{6} \end{pmatrix}$

60. The Hamiltonian of a two-level quantum system is  $H = \frac{1}{2}\hbar\omega \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ . A possible initial state in which the probability of the system being in that quantum state does not change with time, is

1.  $\begin{pmatrix} \cos\frac{\pi}{4} \\ \sin\frac{\pi}{4} \end{pmatrix}$
2.  $\begin{pmatrix} \cos\frac{\pi}{8} \\ \sin\frac{\pi}{8} \end{pmatrix}$
3.  $\begin{pmatrix} \cos\frac{\pi}{2} \\ \sin\frac{\pi}{2} \end{pmatrix}$
4.  $\begin{pmatrix} \cos\frac{\pi}{6} \\ \sin\frac{\pi}{6} \end{pmatrix}$

61. एक विमीय अनंत वर्गकूप

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < a \\ \infty & \text{अन्यथा} \end{cases}$$

पर विचारें। अगर एक क्षेत्र

$$\Delta V(x) = \begin{cases} V_0 & 0 < x < \frac{a}{3} \\ 0 & \text{अन्यथा} \end{cases}$$

लागू किया जाता है, प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा में संशोधन  $\Delta E$  में प्रथम कोटि तक, इसके निकट है

1.  $V_0$
2.  $0.16 V_0$
3.  $0.2 V_0$
4.  $0.33 V_0$

61. Consider a one-dimensional infinite square well

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } 0 < x < a, \\ \infty & \text{otherwise} \end{cases}$$

If a perturbation

$$\Delta V(x) = \begin{cases} V_0 & \text{for } 0 < x < a/3, \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

is applied, then the correction to the energy of the first excited state, to first order in  $\Delta V$ , is nearest to

1.  $V_0$
2.  $0.16 V_0$
3.  $0.2 V_0$
4.  $0.33 V_0$

62. क्वांटम संख्या  $n$  के बहुत मानों के लिए, विभव  $V = cx^6$  (जहाँ  $c > 0$  एक अचर है), में रहते एक क्वांटम तंत्र के ऊर्जा अभिलक्षणिक मान  $E_n$  इस अनुपात में परिवर्तित होते हैं:

1.  $n^{4/3}$
2.  $n^{3/2}$
3.  $n^{5/4}$
4.  $n^{6/5}$

62. The energy eigenvalues  $E_n$  of a quantum system in the potential  $V = cx^6$  (where  $c > 0$  is a constant), for large values of the quantum number  $n$ , varies as

1.  $n^{4/3}$
2.  $n^{3/2}$
3.  $n^{5/4}$
4.  $n^{6/5}$

63. अन्योन्यक्रियाहीन बोसॉनों के एक क्वांटम तंत्र, जो एक कण कुंड के संपर्क में है, पर विचारें। एक दी गयी एकल कण क्वांटम अवस्था में किसी भी कण को न पाने की प्रायिकता  $10^{-6}$  है। उस अवस्था में कणों की मात्रा संख्या इस घात की है

1.  $10^3$
2.  $10^6$
3.  $10^9$
4.  $10^{12}$

63. Consider a quantum system of non-interacting bosons in contact with a particle bath. The probability of finding no particle in a given single particle quantum state is  $10^{-6}$ . The average number of particles in that state is of the order of

1.  $10^3$
2.  $10^6$
3.  $10^9$
4.  $10^{12}$

64. एक गरम कैथोड दाब मानी की संवेदनशीलता है 10 प्रति मिबार। यदि आपतित ओवेशित कणों तथा उत्सर्जित इलैक्ट्रॉनों का अनुपात 1:10 है, तो दाब है

1. 10 मिबार
2.  $10^{-1}$  मिबार
3.  $10^{-2}$  मिबार
4.  $10^2$  मिबार

64. The sensitivity of a hot cathode pressure gauge is  $10 \text{ mbar}^{-1}$ . If the ratio between the numbers of the impinging charged particles to emitted electrons is 1:10, then the pressure is

1. 10 mbar
2.  $10^{-1}$  mbar
3.  $10^{-2}$  mbar
4.  $10^2$  mbar


65. दो भौतिक राशियां  $T$  तथा  $M$  समीकरण  $T = \frac{2\pi}{a} \sqrt{\frac{M+b}{2}}$  द्वारा संबंधित हैं, जहां  $a$  तथा  $b$  अचर प्राचल हैं। एक प्रयोग में,  $a$  के मान को आलेखीयतः निर्धारित करने के लिए,  $M$  के फलन में  $T$  का परिवर्तन अंकित किया गया। मानें कि  $T^2$  बनाम  $M$  चित्र में सरल रेखा की प्रवणता  $m$  है तथा उसके निर्धारण में अनिश्चितता  $\delta m$  है।  $a$  के निर्धारण में अनिश्चितता है

1.  $\frac{a}{2} \left( \frac{\delta m}{m} \right)$
2.  $a \left( \frac{\delta m}{m} \right)$
3.  $\frac{b}{2a} \left( \frac{\delta m}{m} \right)$
4.  $\frac{2\pi}{a} \left( \frac{\delta m}{m} \right)$

65. Two physical quantities  $T$  and  $M$  are related by the equation  $T = \frac{2\pi}{a} \sqrt{\frac{M+b}{2}}$ , where  $a$  and  $b$  are constant parameters. The variation of  $T$  as a function of  $M$  was recorded in an experiment to determine the value of  $a$  graphically. Let  $m$  be the slope of the straight line when  $T^2$  is plotted vs  $M$ , and  $\delta m$  be the uncertainty in determining it. The uncertainty in determining  $a$  is

1.  $\frac{a}{2} \left( \frac{\delta m}{m} \right)$
2.  $a \left( \frac{\delta m}{m} \right)$
3.  $\frac{b}{2a} \left( \frac{\delta m}{m} \right)$
4.  $\frac{2\pi}{a} \left( \frac{\delta m}{m} \right)$


66. निम्न परिपथ में D-फ्लिप-फ्लोट शामिल हैं।  $Q_3, Q_2, Q_1$  तथा  $Q_0$ , से, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, निर्गम लिया जाता है।



CLK निवेश पर लागू प्रत्येक घड़ी स्पंद के लिए कतार  $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$  से दी जाने वाली द्विआधारी संख्या बदलती है। यदि निर्गम 0000 पर आद्यातनित किया जाता है, तो दशमलव संख्याओं का संगत अनुक्रम जो अपने आप को दोहराता है, है

1. 3, 2, 1, 0
2. 1, 3, 7, 14, 12, 8
3. 1, 3, 7, 15, 12, 14, 0
4. 1, 3, 7, 15, 14, 12, 8, 0

66. The circuit below comprises of D-flip flops. The output is taken from  $Q_3, Q_2, Q_1$  and  $Q_0$ , as shown in the figure.



- The binary number given by the string  $Q_3Q_2Q_1Q_0$  changes for every clock pulse that is applied to the CLK input. If the output is initialized at 0000, then the corresponding sequence of decimal numbers that repeats itself, is
1. 3, 2, 1, 0
  2. 1, 3, 7, 14, 12, 8
  3. 1, 3, 7, 15, 12, 14, 0
  4. 1, 3, 7, 15, 14, 12, 8, 0
- 67.** एकल कण कोश प्रतिरूप में समस्थानिक  $^{57}_{28}\text{Ni}$  के आधार तथा प्रथम उत्तेजित अवस्थाओं के लिए प्रचक्रण-पैरिटी नियतन हैं
1.  $(1/2)^-$  तथा  $(3/2)^-$
  2.  $(5/2)^+$  तथा  $(7/2)^+$
  3.  $(3/2)^+$  तथा  $(5/2)^+$
  4.  $(3/2)^-$  तथा  $(5/2)^-$
- 67.** The spin-parity assignments for the ground and first excited states of the isotope  $^{57}_{28}\text{Ni}$ , in the single particle shell model, are
1.  $(1/2)^-$  and  $(3/2)^-$
  2.  $(5/2)^+$  and  $(7/2)^+$
  3.  $(3/2)^+$  and  $(5/2)^+$
  4.  $(3/2)^-$  and  $(5/2)^-$
- 68.** नाभिक  $^{238}_{92}\text{U}$  की धूर्णन वर्णमाला की प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा, आधार अवस्था के ऊपर 45 keV है। द्वितीय उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा (keV में) है
1. 150
  2. 120
  3. 90
  4. 60
- 68.** The first excited state of the rotational spectrum of the nucleus  $^{238}_{92}\text{U}$  has an energy 45 keV above the ground state. The energy of the second excited state (in keV) is
1. 150
  2. 120
  3. 90
  4. 60
- 69.** निम्न प्रक्रियाओं में कौन-सा प्रबल अन्योन्यक्रिया द्वारा अनुमत नहीं है, परंतु दुर्बल अन्योन्यक्रिया द्वारा अनुमत है?
1.  $K^0 + \pi^0 \rightarrow \bar{K}^0 + \pi^+ + \pi^-$
  2.  $p + n \rightarrow d + p + \bar{p}$
  3.  $\Delta^+ + K^0 \rightarrow p + n$
  4.  $p + \Delta^+ \rightarrow \bar{n} + \Delta^{++}$
- 69.** Which of the following processes is not allowed by the strong interaction but is allowed by the weak interaction?
1.  $K^0 + \pi^0 \rightarrow \bar{K}^0 + \pi^+ + \pi^-$
  2.  $p + n \rightarrow d + p + \bar{p}$
  3.  $\Delta^+ + K^0 \rightarrow p + n$
  4.  $p + \Delta^+ \rightarrow \bar{n} + \Delta^{++}$
- 70.** स्फटिक MnO की NaCl वाली संरचना होती है। 120K पर उसका एक अनुचुंबकीय से प्रतिलोहचुंबकीय संक्रमण है। 120 K से नीचे एक एकल [111] समतल पर प्रचक्रण समांतर हैं, परंतु आसन्न [111] समतलों पर प्रचक्रण प्रति-समांतर हैं। यदि जालक अचरों,  $d$  तथा  $d'$  के, क्रमशः MnO के संक्रमण ताप के नीचे तथा ऊपर, निर्धारण हेतु न्यूट्रॉन प्रकीर्णन का उपयोग किया जाता है, तो
1.  $d = d'/2$
  2.  $d = d'/\sqrt{2}$
  3.  $d = 2d'$
  4.  $d = \sqrt{2}d'$
- 70.** A crystal of MnO has NaCl structure. It has a paramagnetic to anti-ferromagnetic transition at 120K. Below 120 K, the spins within a single [111] plane are parallel but the spins in adjacent [111] planes are anti-parallel. If neutron scattering is used to determine the lattice constants, respectively,  $d$  and  $d'$ , below and above the transition temperature of MnO then
1.  $d = d'/2$
  2.  $d = d'/\sqrt{2}$
  3.  $d = 2d'$
  4.  $d = \sqrt{2}d'$
- 71.** लंबाई  $l$  के एक घातविक नैनोतार को, जालक अंतराल  $a$  के साथ  $N$  परमाणुओं के एक विमीय जालक के रूप में, सन्निकटित किया जाता है। यदि जालक में इलैक्ट्रॉनों का परिक्षेपण  $E(k) = E_0 - 2t \cos ka$  से दिया जाता है, जहां  $E_0$  मुक्त आकश में इलैक्ट्रॉन की ऊर्जा है तथा  $t$  एक अचर, तो नैनोतार के अंदर अवस्थाओं का घनत्व इस प्रकार परिवर्तित होता है
1.  $N^3 \sqrt{\frac{t^2}{E-E_0}}$
  2.  $\sqrt{\left(\frac{E-E_0}{2t}\right)^2 - 1}$
  3.  $N^3 \sqrt{\frac{E-E_0}{t^2}}$
  4.  $\frac{N}{\sqrt{(2t)^2 - (E-E_0)^2}}$
- 71.** A metallic nanowire of length  $l$  is approximated as a one-dimensional lattice of

$N$  atoms with lattice spacing  $a$ . If the dispersion of electrons in the lattice is given as  $E(k) = E_0 - 2t \cos ka$ , where  $E_0$  and  $t$  are constants,, then the density of states inside the nanowire depends on  $E$  as

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. $N^3 \sqrt{\frac{t^2}{E-E_0}}$ | 2. $\sqrt{\left(\frac{E-E_0}{2t}\right)^2 - 1}$ |
| 3. $N^3 \sqrt{\frac{E-E_0}{t^2}}$ | 4. $\frac{N}{\sqrt{(2t)^2 - (E-E_0)^2}}$        |

72. लंबाई  $\ell$  तथा चौड़ाई  $w$  के एक द्विविमीय पदार्थ, जिसे उससे लांबिक एक अचर चुंबकीय क्षेत्र  $B$  अनुभव करता है, पर विचारें। प्रति इकाई क्षेत्रफल आवेश वाहकों की संख्या  $n = k|q|B/(2\pi\hbar)$  के रूप में अभिव्यक्त की जा सकती है, जहां  $k$  एक धन वास्तविक संख्या है तथा  $q$  वाहक आवेश है। तो हॉल प्रतिरोधकता  $\rho_{xy}$  है

- |  |   |
|--|---|
| 1. $\frac{2\pi\hbar k}{q^2} \sqrt{\frac{\ell}{w}}$ | 2. $\frac{2\pi\hbar}{kq^2} \sqrt{\frac{w}{\ell}}$ |
| 3. $\frac{2\pi\hbar}{kq^2}$                        | 4. $\frac{2\pi\hbar k}{q^2}$                      |

72. Consider a two-dimensional material of length  $\ell$  and width  $w$  subjected to a constant magnetic field  $B$  applied perpendicular to it. The number of charge carriers per unit area may be expressed as  $n = k|q|B/(2\pi\hbar)$ , where  $k$  is a positive real number and  $q$  is the carrier charge. Then the Hall resistivity  $\rho_{xy}$  is

- |  |   |
|--|---|
| 1. $\frac{2\pi\hbar k}{q^2} \sqrt{\frac{\ell}{w}}$ | 2. $\frac{2\pi\hbar}{kq^2} \sqrt{\frac{w}{\ell}}$ |
| 3. $\frac{2\pi\hbar}{kq^2}$                        | 4. $\frac{2\pi\hbar k}{q^2}$                      |

73. क्वांटम संख्यायें  $L, S, J$  तथा  $m_J$  युक्त एक अवस्था का जेमानी विस्थापन है

$$H_Z = \frac{m_J \mu_B B}{J(J+1)} (\langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{J} \rangle + g_s \langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{J} \rangle)$$

जहां  $B$  लागू किया गया चुंबकीय क्षेत्र है,  $g_s$  प्रचक्रण के लिए  $g$ -गुणांक है तथा  $\mu_B = 1.4$  MHz-G<sup>-1</sup> बोर मेगैटान है, जहां  $h$  प्लैक कॉन्स्टेंट है। 1 G के चुंबकीय क्षेत्र पर  $S = 0$ ,  $L = 1$  तथा  $m_J = 1$  अवस्था की बारंबारता में विस्थापन लगभग है

- |           |            |
|-----------|------------|
| 1. 10 MHz | 2. 1.4 MHz |
| 3. 5 MHz  | 4. 2.8 MHz |

73. The Zeeman shift of the energy of a state with quantum numbers  $L, S, J$  and  $m_J$  is

$$H_Z = \frac{m_J \mu_B B}{J(J+1)} (\langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{J} \rangle + g_s \langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{J} \rangle)$$

where  $B$  is the applied magnetic field,  $g_s$  is the  $g$ -factor for the spin and  $\mu_B/h = 1.4$  MHz-G<sup>-1</sup>, where  $h$  is the Planck constant. The approximate frequency shift of the  $S = 0$ ,  $L = 1$  and  $m_J = 1$  state, at a magnetic field of 1 G, is

- |           |            |
|-----------|------------|
| 1. 10 MHz | 2. 1.4 MHz |
| 3. 5 MHz  | 4. 2.8 MHz |

74. एक सामान्य बहुक के आसन्न स्तरों के बीच का पार्थक्य  $22 \text{ cm}^{-1}$  तथा  $33 \text{ cm}^{-1}$  पाये जाते हैं। मानें कि  $L-S$  युग्मन योजना तथा लैंडे की अंतराल विधि, अर्थात्  $E(J) - E(J-1) = AJ$ , जहां  $A$  एक अचर है, द्वारा बहुक अच्छी तरह वर्णित है। इस बहुक का पटीय संकेतन है

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. ${}^3P_{0,1,2}$ | 2. ${}^3F_{2,3,4}$ |
| 3. ${}^3G_{3,4,5}$ | 4. ${}^3D_{1,2,3}$ |

74. The separations between the adjacent levels of a normal multiplet are found to be  $22 \text{ cm}^{-1}$  and  $33 \text{ cm}^{-1}$ . Assume that the multiplet is described well by the  $L-S$  coupling scheme and the Lande's interval rule, namely  $E(J) - E(J-1) = AJ$ , where  $A$  is a constant. The term notations for this multiplet is

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. ${}^3P_{0,1,2}$ | 2. ${}^3F_{2,3,4}$ |
| 3. ${}^3G_{3,4,5}$ | 4. ${}^3D_{1,2,3}$ |

75. यदि हाईड्रोजन परमाणु में  $2 {}^2P_{3/2}$  तथा  $2 {}^2P_{1/2}$  स्तरों का सूक्ष्म संरचना विपाटन  $0.4 \text{ cm}^{-1}$  है, तो  $\text{Li}^{2+}$  में संगत विपाटन होगा लगभग

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. $1.2 \text{ cm}^{-1}$  | 2. $10.8 \text{ cm}^{-1}$ |
| 3. $32.4 \text{ cm}^{-1}$ | 4. $36.8 \text{ cm}^{-1}$ |

75. If the fine structure splitting between the  $2 {}^2P_{3/2}$  and  $2 {}^2P_{1/2}$  levels in the hydrogen atom is  $0.4 \text{ cm}^{-1}$ , the corresponding splitting in  $\text{Li}^{2+}$  will approximately be

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. $1.2 \text{ cm}^{-1}$  | 2. $10.8 \text{ cm}^{-1}$ |
| 3. $32.4 \text{ cm}^{-1}$ | 4. $36.8 \text{ cm}^{-1}$ |

FOR ROUGH WORK